आपके लिए कुछ भी

जॉन वालेस

चित्र: हैरी होर्से

हिंदी: नित्या बंसल गर्ग



आपके लिए कुछ भी

आपके लिए कुछ भी

जॉन वालेस

चित्र: हैरी होर्स

हिंदी: नित्या बंसल गर्ग

विलियम ,सैमी और इसैक के लिए - J .W.

देरेक के लिए --H.H

एक बहुत लंबे दिन के समाप्त होने के बाद ये करीब करीब सोने का समय था।

छोटा सा चार्ली लगातार जिंजर की मदद करने की कोशिश कर रहा था,

लेकिन किसी न किसी वजह से चीजें गलत होती जा रही थीं।

छोटा चार्ली बगीचे
को साफ़ करने में
जिंजर की मदद
करने की कोशिश कर
रहा था।

वह कुछ खोदने का काम कर रहा था ....

.....और कुछ सेब इकट्ठे कर रहा था,

.......लेकिन उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था।

फिर छोटे चार्ली ने घर साफ़ करने में जिंजर की और भी ज्यादा मदद करने की कोशिश की।

लेकिन उसने उसमें और भी ज्यादा बड़ी गड़बड़ की।

"ओह प्रिय!" जिंजर ने कहा।

"घर की सफाई की जगह अब मुझे तुम्हें साफ़ करना होगा!"

जिंजर छोटे चार्ली के लिए एक तौलिया लेकर नहलाने भागी।

"कृपया ,क्या तुम अंदर आ सकते हो ?"
जिंजर ने पूछा।

"अभी आया!"

छोटे चार्ली ने उत्तर दिया।

“मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा।"

"मैं आपके लिए बाथटब के आखिरी
किनारे तक तैरूँगा," छोटे चार्ली ने कहा।

"और फिर दोबारा वापस भी आऊंगा।"

"सच में?" जिंजर ने कहा।

और उसने छोटे चार्ली को बाथटब से बाहर ऊपर उठाया।

"चलो मैं तुम्हें तौलिये से पोंछती हूँ।"

"मैं आपके लिए एक बहुत ऊँचे पेड़ पर ऊपर तक चढ़ूँगा!"
छोटे चार्ली ने कहा।

"सच में?"

जिंजर ने कहा।

मैं आपके लिए अपनी सबसे
बड़ी हसीं में मुस्कुराऊंगा,"

"और मैं आपके लिए एक
विशेष चित्र बनाऊंगा। ....

.......और आपको
अपने सारे पैसे दे
दूंगा। "

"जिंजर," छोटा चार्ली फुसफुसाया,

"यहाँ तक कि मैं आपको अपना

सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहूंगा।"

"तुम जरूर ऐसा करोगे?" जिंजर ने उत्तर दिया।

"मैं करूँगा !"छोटे चार्ली ने कहा।

"क्योंकि! मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा!"

"कुछ भी?"

जिंजर ने पूछा।

"कुछ भी!"

छोटे चार्ली ने जवाब दिया।

तभी जिंजर को एक विचार आया।

यह सच में एक बहुत लम्बा दिन बीता था

और उसने देखा कि छोटा चार्ली बहुत थका हुआ दिख रहा था।

"तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे,”

जिंजर ने पूछा।

फिर उसने कुछ देर के लिए सोचा।

"क्या तुम मेरे लिए बिस्तर मैं आ जाओगे?" उसने पूछा।

"कुछ भी करूंगा,"

छोटे चार्ली ने गर्व से कहा।

"क्या तुम कंबल में आकर मुझसे लिपट जाओगे?"

जिंजर ने छोटे चार्ली को कम्बल में अंदर दबाते हुए पुछा।

"कुछ भी,"
छोटे चार्ली ने कम्बल में अंदर घुसते हुए कहा।

"क्या तुम मेरे लिए अपनी आंखें बंद करोगे?"

जिंजर ने बहुत धीमी आवाज में पूछा।

"कुछ भी,"
छोटे चार्ली ने जम्हाई लेते हुए कहा।

"क्या तुम मेरे लिए अच्छे से सो जाओगे?"

जिंजर ने धीरे से कहा।

"कुछ भी ...."

छोटा चार्ली नींद में बुदबुदाया।

"क्या तुम मेरे लिए पूरी लम्बी रात अच्छे से सोओगे?"

जिंजर ने बहुत धीरे से कहा।

लेकिन छोटे चार्ली ने कुछ नहीं कहा,

क्योंकि वो गहरी नींद में सो गया था।

जिंजर ने उसे प्यार से एक गुडनाइट पुच्ची दी।

"और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी,"

जिंजर ने कहा।

"अच्छे से सो जाओ मेरे छोटे से बच्चे।"

जिंजर और छोटे चार्ली के लिए यह एक बहुत लम्बे दिन का आखिरी का समय है।

"मैं आपके किये कुछ भी करूँगा," छोटे चार्ली ने कहा।

"मैं आपके लिए अपनी सबसे बड़ी हसीं में मुस्कुराऊंगा,

एक विशेष चित्र बनाऊंगा और यहाँ तक कि

आपको अपना सबसे अच्छा मित्र भी बनाऊंगा।"

लेकिन क्या? छोटा चार्ली वो करेगा जो जिंजर सच में चाहती है और पूरी लम्बी रात अच्छे से गहरी नींद सोयेगा ....

एक मधुर और कोमल, सौम्य हास्य से भरी हुई सोने से पहले की कहानी